

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 167]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 अप्रैल 2015—वैशाख 9, शक 1937

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2015

क्र. 1343-1163-2015-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारियों को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिलों के नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बैतूल	बैतूल	श्रीमती कुमुदनी पटेल, III CJ-I & ACJM
2	भिण्ड	भिण्ड	श्री संजय गोयल, Ist AJ to CJ-I & ACJM
3	बुरहानपुर	बुरहानपुर	श्रीमती रश्मि बाल्टर, IInd CJ-I & JMFC
4	छतरपुर	छतरपुर	श्रीमती संगीता यादव, IIIrd CJ-I & JMFC
5	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	श्री संदीप कुमार पाटिल, IVth CJ-I & JMFC
6	दमोह	दमोह	श्री अनुराग द्विवेदी, IInd AJ to Ist CJ-I & ACJM
7	दतिया	दतिया	कु. शैलजा गुप्ता, Ist CJ-II & JMFC
8	धार	धार	कु. पद्मा राजोरे, IInd CJ-II & JMFC
9	डिंडोरी	डिंडोरी	श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव, Ist CJ-I & CJM
10	खंडवा	खंडवा	श्रीमती सीता कनोगे, IInd AJ to Ist CJ-II & JMFC

(1)	(2)	(3)	(4)
11	गुना	गुना	श्रीमती रमा जयंत मित्तल, IV th CJ-I & JMFC
12	ग्वालियर	ग्वालियर	श्रीमती सिद्धी मिश्रा, IIInd CJ-I & JMFC
13	हरदा	हरदा	श्री देवीलाल सनोदिया, Ist CJ-I & CJM
14	होशंगाबाद	होशंगाबाद	श्रीमती नीलम शुक्ला, IIInd AJ to Ist CJ-I & JMFC
15	जबलपुर	जबलपुर	कु. सौमप्रभा ठाकुर, Ist AJ to CJ-I & JMFC
16	कटनी	कटनी	कु. शिप्रा पटेल, Vth CJ-I & JMFC
17	मुरैना	मुरैना	श्रीमती कविता वर्मा, IIInd AJ to Ist CJ-I & ACJM
18	पन्ना	पन्ना	श्री दिनेश सिंह राना, Ist CJ-II & JMFC
19	राजगढ़	राजगढ़	श्रीमती दीपाली शर्मा, IIInd CJ-I & ACJM
20	रतलाम	रतलाम	श्रीमती रश्मि मिश्रा, IVth CJ-II & JMFC
21	रीवा	रीवा	श्रीमती शोभना गौतम, Ist CJ-II & JMFC
22	सतना	सतना	श्री अनिल कुमार पाठक, IVth CJ-I & ACJM
23	सीहोर	सीहोर	श्रीमती अर्चना सिंह, IIInd CJ-I & JMFC
24	शाजापुर	शाजापुर	श्रीमती आरती डिंगरा, IVth CJ-II & JMFC
25	श्योपुर	श्योपुर	श्री सुधीर कुमार, Ist CJ-I & CJM
26	सीधी	सीधी	श्री आशीष कुमार केसरवानी, Ist CJ-II & JMFC
27	सिंगरौली	सिंगरौली	श्रीमती किरण कोल, Ist AJ to Ist CJ-I & JMFC
28	टीकमगढ़	टीकमगढ़	श्रीमती नमिता द्विवेदी, III CJ-II & JMFC
29	उज्जैन	उज्जैन	श्री सचिन शर्मा, IV th CJ-I & ACJM
30	उमरिया	उमरिया	श्री जयशंकर श्रीवास्तव, Ist CJ-I & CJM
31	विदिशा	विदिशा	श्रीमती ज्योति मिश्रा, AJ to Ist CJ-I & JMFC
32	मंडलेश्वर	मंडलेश्वर	श्रीमती संगीता पटेल, IIInd CJ-I & JMFC.

Bhopal, the 24th April 2015

No. 1343-1163-2015-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 (No. 56 of 2000), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the Districts	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Betul	Betul	Smt. Kumudni Patel, III rd CJ-I & ACJM
2	Bhind	Bhind	Shri Sanjay Goyal, Ist AJ to CJ-I & ACJM

(1)	(2)	(3)	(4)
3	Burhnapur	Burhnapur	Smt. Rashmi Balter, IInd CJ-I & JMFC
4	Chhatarpur	Chhatarpur	Smt. Sangeeta Yadav, IIIrd CJ-I & JMFC
5	Chhindwara	Chhindwara	Shri Sandeep Kumar Patil, IVth CJ-I & JMFC
6	Damoh	Damoh	Shri Anurag Dwivedi, IInd AJ to Ist CJ-I & ACJM
7	Datia	Datia	Ku. Shailja Gupta, Ist CJ-II & JMFC
8	Dhar	Dhar	Ku. Padma Rajore, III rd CJ-II & JMFC
9	Dindori	Dindori	Shri Sandeep Kumar Shrivastava, Ist CJ-I & CJM
10	Khandwa	Khandwa	Smt. Sita Kanoge, IInd AJ to Ist CJ-II & JMFC
11	Guna	Guna	Smt. Rama jayant Mittal, IV th CJ-I & JMFC
12	Gwalior	Gwalior	Smt. Siddhi Mishra, IInd CJ-I & JMFC
13	Harda	Harda	Shri Devilal Sanodia, Ist CJ-I & CJM
14	Hoshangabad	Hoshangabad	Smt. Neelam Shukla, IInd AJ to Ist CJ-I & JMFC
15	Jabalpur	Jabalpur	Ku. Somprabha Thakur, Ist AJ to CJ-I & JMFC
16	Katni	Katni	Ku. Shipra Patel, IVth CJ-I & JMFC
17	Morena	Morena	Smt. Kavita Verma, IInd AJ to Ist CJ-I & ACJM
18	Panna	Panna	Shri Dinesh Singh Rana, Ist CJ-II & JMFC
19	Rajgarh	Rajgarh	Smt. Deepali Sharma, IInd CJ-I & ACJM
20	Ratlam	Ratlam	Smt. Rashmi Mishra, IVth CJ-II & JMFC
21	Rewa	Rewa	Smt. Shobhana Gautam, Ist CJ-II & JMFC
22	Satna	Satna	Shri Anil Kumar Pathak, IVth CJ-I & ACJM
23	Sehore	Sehore	Smt. Archana Singh, IInd CJ-I & JMFC
24	Shajapur	Shajapur	Smt. Arti Dhingra, IVth CJ-II & JMFC
25	Sheopur	Sheopur	Shri Sudhir Kumar, Ist CJ-I & CJM
26	Sidhi	Sidhi	Shri Ashish Kumar Kesarwani, Ist CJ-II & JMFC
27	Singrauli	Singrauli	Smt. Kiran Kol, Ist AJ to Ist CJ-I & JMFC
28	Tikamgarh	Tikamgarh	Smt. Namita Dwivedi, III CJ-II & JMFC
29	Ujjain	Ujjain	Shri Sachin Sharma, IV th CJ-I & ACJM
30	Umaria	Umaria	Shri Jaishankar Shrivastava, Ist CJ-I & CJM
31	Vidisha	Vidisha	Smt. Jyoti Mishra, AJ to Ist CJ-I & JMFC
32	Mandleshwar	Mandleshwar	Smt. Sangita Patel, II nd CJ-I & JMFC.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एन. कांसोटिया, प्रमुख सचिव.